



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण


EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 80]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 21, 2001/फाल्गुन 30, 1922

No. 80]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 21, 2001/PHALGUNA 30, 1922

राष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जनवरी, 2001

सं. 50-प्रज/2001.— राष्ट्रपति निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान करते हैं :-

भारत रत्न

सुश्री लता दीनानाथ मंगेशकर, (कला-संगीत), मुंबई, महाराष्ट्र ।

पद्म विभूषण

उस्ताद अमजद अली खाँ, (कला - भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत), नई दिल्ली ।

डा० कल्यमंपूडी राधाकृष्णा राव, (विज्ञान और इंजीनियरी-सांख्यिकी), संयुक्त राज्य अमेरिका ।

श्री होसेई नोरोता, (सार्वजनिक कार्य), जापान ।

श्री जान कैन्थ गैलब्रेथ (साहित्य और शिक्षा-अर्थशास्त्र), मैसूरूसेट्स, संयुक्त राज्य अमेरिका ।

प्रो० मन मोहन शर्मा, (विज्ञान और इंजीनियरी - रासायनिक इंजीनियरी), मुंबई, महाराष्ट्र ।

पदम भूषण

- मौलाना अब्दुल करीम पारेख, (समाज कार्य), नागपुर, महाराष्ट्र ।
 डा० (कुमारी) अमृता पटेल, (व्यापार और आर्थिक कार्य - डेरी विकास), आनन्द, गुजरात ।
 श्री अरुण पुरी, (साहित्य और शिक्षा - पत्रकारिता), दिल्ली ।
 श्री बद्रीनारायण रामूलाल बारवाले, (व्यापार और आर्थिक कार्य), मुंबई, महाराष्ट्र ।
 डा० भूपेन हज़ारिका, (कला - संगीत), मुंबई, महाराष्ट्र ।
 डा० चित्तरंजन सिंह राणावत, (चिकित्सा - विकलांग विज्ञान), न्यू जर्सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ।
 डा० करिमुमणिल मन्नाई जोर्ज, (साहित्य और शिक्षा), तिरुवनन्तपुरम, केरल ।
 श्री लालगुडी गोपालय्यर जयरामन (कला-भारतीय शास्त्रीय वाद्य संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 डा० नरेश कुमार त्रेहान, (चिकित्सा - कार्डियोवास्कुलर सर्जरी), दिल्ली ।
 डा० (श्रीमती) पलुवाई भानुमती रामकृष्ण, (कला-सिनेमा), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 श्री प्राण सीकंद, (कला - सिनेमा), मुंबई, महाराष्ट्र ।
 श्री राहुल बजाज, (व्यापार और आर्थिक कार्य - उद्योग), पुणे, महाराष्ट्र ।
 डा० राजेन्द्र कुमार पचौरी, (पर्यावरण सुरक्षा), दिल्ली ।
 प्रो० शिव कुमार कुमार, (साहित्य और शिक्षा), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
 श्री त्रिम्बक उर्फ बालासाहेब शिवराम भारडे, (समाज कार्य), पुणे, महाराष्ट्र ।
 श्री विश्वनाथन आनन्द, (खेलकूद - शतरंज), चेन्नई, तमिलनाडु ।

पदम श्री

- श्री आमिर रज़ा हुसैन, (कला - सिनेमा), गुड़गांव, हरियाणा ।
 डा० अवदानम सीता रामन, (कला - चित्रकला), चेन्नई, तमिल नाडु ।
 डा० भबेन्द्र नाथ शङ्कीया, (साहित्य और शिक्षा), गुवाहाटी, असम ।
 डा० (प्रो०) भुपतिराजू सोमाराजू, (चिकित्सा - हृदय रोग विज्ञान), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
 प्रो० बिकाश चन्द्र सिन्हा, (विज्ञान और इंजीनियरी - नाभिकीय भौतिकी), कोलकाता, पश्चिम बंगाल ।
 डा० चन्द्रशेखर बसवणेप्पा कंबार, (साहित्य और शिक्षा-काव्य), बंगलौर, कर्नाटक ।
 डा० चन्द्रतिल गौरी कृष्णदास नायर, (विज्ञान और इंजीनियरी), बंगलौर, कर्नाटक ।
 डा० दासरि प्रसाद राव (चिकित्सा - कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
 डा० दासिका दुर्गा प्रसाद राव (विज्ञान और इंजीनियरी - रिमोट सेंसिंग), हैदराबाद, आंध्र प्रदेश ।
 श्री इलाट्टुवलप्पिल श्रीधरन, (सिविल सेवा), दिल्ली ।

- प्रो० गोवर्धन मेहता, (विज्ञान और इंजीनियरी - रासायनिक इंजीनियरी), बंगलौर, कर्नाटक ।
 डा० ज्योति भूषण बनर्जी, (चिकित्सा), इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश ।
 श्री कालीदास गुप्ता 'रिजा', (साहित्य और शिक्षा - उर्दू काव्य), मुंबई, महाराष्ट्र ।
 डा० (सुश्री) केटायुन आर्देशीर दिनशाँ, (विज्ञान एवं इंजीनियरी - रेडिएशन ऑनकोलोजी),
 मुंबई, महाराष्ट्र ।
 डा० कृष्ण प्रसाद सिंह वर्मा, (चिकित्सा - बाल चिकित्सा), दिल्ली ।
 श्री लाइश्रम नवकिशोर सिंह, (चिकित्सा - आयुर्वेदिक), इम्फाल, मणिपुर ।
 डा० माधवन कृष्णन नायर, (चिकित्सा - कैंसर इलाज), तिरुवनंथपुरम, केरल ।
 सुश्री मालती कृष्णामूर्ती होल्ला, (खेलकूद - विकलांगों के लिए खेलकूद), बंगलौर, कर्नाटक ।
 प्रो० मुहम्मद शफी, (विज्ञान और इंजीनियरी - भूगोल), अलीगढ़, उत्तर प्रदेश ।
 श्री मोहम्मद तैयब खान, (कला - हस्तशिल्प), जोधपुर, राजस्थान ।
 श्री मोहन रानडे, (लोक कार्य), पुणे, महाराष्ट्र ।
 डा० मूल चन्द माहेश्वरी, (चिकित्सा), दिल्ली ।
 श्रीमती पद्मजा फेणाणी जोगलेकर (कला - संगीत), मुंबई, महाराष्ट्र ।
 डा० प्रेम शंकर गोयल, (विज्ञान और इंजीनियरी - उपग्रह नियंत्रण प्रणाली), बंगलौर, कर्नाटक ।
 डा० जानानन्द कवि, (साहित्य एवं शिक्षा - तेलुगु काव्य), काकीनाडा, आंध्र प्रदेश ।
 डा० सन्दीप कुमार बसु, (विज्ञान और इंजीनियरी - बायो मेडिकल रिसर्च), दिल्ली ।
 डा० शरद कुमार दीक्षित, (चिकित्सा - प्लास्टिक सर्जरी), न्यू यार्क, यू०एस०ए० ।
 श्री श्रीपति पण्डिताराध्युल बालसुब्रह्मण्यम, (कला - संगीत), चेन्नई, तमिलनाडु ।
 डा० सुनील मणीलाल कोठारी, (कला - कला संवर्धन), दिल्ली ।
 डा० तिरूमलाचारि रामसामी, (विज्ञान और इंजीनियरी - रासायनिक इंजीनियरी), चेन्नई,
 तमिलनाडु ।
 प्रो० तिरुप्पत्तूर वैकटाचलमूर्ति रामकृष्णन, (विज्ञान और इंजीनियरी-भौतिकी), बंगलौर, कर्नाटक ।
 सुश्री तुलसि मुण्डा, (समाज कार्य), क्योँझर, उड़ीसा ।
 श्री वचनेश त्रिपाठी, (साहित्य एवं शिक्षा - पत्रकारिता), लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

PRESIDENT'S SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th January, 2001

No. 50-Pers/2001.— The President is pleased to make the following awards :-

BHARAT RATNA

Ms. Lata Dinanath Mangeshkar, (Art – Music), Mumbai, Maharashtra.

PADMA VIBHUSHAN

Ustad Amjad Ali Khan, (Art - Indian Classical Instrumental Music), New Delhi.

Dr. Calyampudi Radhakrishna Rao, (Science and Engineering - Statistics), USA.

Shri Hosei Norota (Public Affairs), Japan.

Shri John Kenneth Galbraith, (Literature & Education - Economics), Massachusetts, USA.

Prof. Man Mohan Sharma, (Science & Engineering - Chemical Engineering), Mumbai, Maharashtra.

PADMA BHUSHAN

Maulana Abdul Karim Parekh, (Social Work), Nagpur, Maharashtra.

Dr. (Kumari) Amrita Patel, (Trade & Economic Activity - Dairy Development), Anand, Gujarat.

Shri Aroon Purie, (Literature & Education - Journalism), Delhi.

Shri Badrinarayan Ramulal Barwale, (Trade & Economic Activity), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Bhupen Hazarika, (Art - Music), Mumbai, Maharashtra.

Dr. Chitranjan Singh Ranawat, (Medicine - Orthopaedics), New Jersey, USA.

Dr. Karimpumannil Mathai George, (Literature & Education), Thiruvananthapuram, Kerala.

Shri Lalgudi Gopalaiyer Jayaraman, (Art - Indian Classical Instrumental Music), Chennai, Tamil Nadu.

Dr. Naresh Kumar Trehan, (Medicine - Cardiovascular Surgery), Delhi.

Dr. (Smt.) Paluvai Bhanumathi Ramakrishna, (Art - Cinema), Chennai, Tamil Nadu.

Shri Pran Sikand, (Art - Cinema), Mumbai, Maharashtra.

Shri Rahul Bajaj, (Trade & Economic Activity - Industry), Pune, Maharashtra.

Dr. Rajendra Kumar Pachauri, (Protection of Environment), Delhi.

Prof. Shiv Kumar Kumar, (Literature & Education), Hyderabad, Andhra Pradesh.

Shri Trimbak alias Balasaheb Shivram Bharade, (Social Work), Pune, Maharashtra.

Shri Viswanathan Anand, (Sports - Chess), Chennai, Tamil Nadu.

PADMA SHRI

- Shri Aamir Raza Husain, (Art - Cinema), Gurgaon, Haryana.
 Dr. Avadhanam Sita Raman, (Art - Painting), Chennai, Tamil Nadu.
 Dr. Bhabendra Nath Saikia, (Literature & Education), Guwahati, Assam.
 Dr. (Prof.) Bhupathiraju Somaraju, (Medicine - Cardiology), Hyderabad, Andhra Pradesh.
 Prof. Bikash Chandra Sinha, (Science & Engineering - Nuclear Physics), Kolkata, West Bengal.
 Dr. Chandrasekhara Basavanneppa Kambar, (Literature & Education - Poetry), Bangalore, Karnataka.
 Dr. Chandrathil Gouri Krishnadas Nair, (Science and Engineering), Bangalore, Karnataka.
 Dr. Dasari Prasada Rao (Medicine - Cardio-Thoracic Surgery), Hyderabad, Andhra Pradesh.
 Dr. Dasika Durga Prasada Rao, (Science & Engineering - Remote Sensing), Hyderabad, Andhra Pradesh.
 Shri Elattuvalapil Sreedharan, (Civil Service), Delhi.
 Prof. Goverdhan Mehta, (Science & Engineering - Chemical Sciences), Bangalore, Karnataka.
 Dr. Jyoti Bhushan Banerji, (Medicine), Allahabad, Uttar Pradesh.
 Shri Kalidas Gupta Riza, (Literature & Education - Urdu Poetry), Mumbai, Maharashtra.
 Dr. (Ms.) Ketayun Ardeshir Dinshaw, (Science & Engineering - Radiation Oncology), Mumbai, Maharashtra.
 Dr. Krishna Prasad Singh Varma, (Medicine - Paediatrics), Delhi.
 Shri Laishram Nabakishore Singh, (Medicine - Ayurvedic), Imphal, Manipur.
 Dr. Madhavan Krishnan Nair, (Medicine - Cancer Treatment), Thiruvananthapuram, Kerala.
 Ms. Malathi Krishnamurthy Holla, (Sports - Sports for disabled), Bangalore, Karnataka.
 Prof. Mohammad Shafi, (Science & Engineering - Geography), Aligarh, Uttar Pradesh.
 Shri Mohammed Tayab Khan, (Art - Craftsmanship), Jodhpur, Rajasthan.
 Shri Mohan Ranade, (Public Affairs), Pune, Maharashtra.
 Dr. Mool Chand Maheshwari, (Medicine), Delhi.
 Smt. Padmaja Phenany Joglekar, (Art - Music), Mumbai, Maharashtra.
 Dr. Prem Shanker Goel, (Science & Engineering - Satellite Control System), Bangalore, Karnataka.
 Dr. Gnanananda Kavi, (Literature & Education - Telugu Poetry), Kakinada, Andhra Pradesh.
 Dr. Sandip Kumar Basu, (Science & Engineering - Bio-Medical Research), Delhi.
 Dr. Sharadkumar Dicksheet, (Medicine - Plastic Surgery), New York, USA.
 Shri Sripathi Panditharadhyula Balasubrahmanyam, (Art - Music), Chennai, Tamil Nadu.
 Dr. Sunil Manilal Kothari, (Art - Promotion of Art), Delhi.

Dr. Thirumalachari Ramasami, (Science & Engineering - Chemical Sciences), Chennai, Tamil Nadu.

Prof. Tiruppattur Venkatachalamurti Ramakrishnan, (Science & Engineering - Physics), Bangalore, Karnataka.

Ms. Tulasi Munda, (Social Work), Keonjhar, Orissa.

Shri Vachnesh Tripathi, (Literature & Education - Journalism), Lucknow, Uttar Pradesh.

SHUMSHER K. SHERIFF, Jt. Secy. to the President